

# किस हाल में हैं जॉर्ज फर्नांडिज़



पूर्व रक्षामंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडीस जी इस वक्त अल्ज़ाइमर नाम की बीमारी की गिरफ्त में हैं और सात स्टेज वाली इस बीमारी के छठी स्टेज में हैं। उन्होंने मशहूर कांग्रेसी नेता हुमायूं कबीर की बेटी लैला कबीर से शादी की। एक बेटा भी हुआ लेकिन बावजूद उसके पच्चीस साल लैला कबीर जॉर्ज से अलग विदेश में रही और कभी उन्होंने जॉर्ज की ज़िंदगी में नहीं झांका। जॉर्ज की लोकसभा चुनाव में हार के बाद बुरी हालत हो गई थी और उनके पास रहने का भी कोई ठिकाना नहीं था। मुंबई की यूनियन के साथियों ने उनके लिए हौजखास में एक मकान खरीदा था, पर मकान का टाइटिल यूनियन के नाम था इसलिए वो उसमें भी नहीं जा पा रहे थे। अचानक खबर आई कि बंगलौर में जॉर्ज की मां के नाम ज़मीन का एक टुकड़ा है, जो इसलिए खरीदा गया था कि बुढ़ापे में जॉर्ज वहां रहकर समाज सेवा केंद्र चलाएंगे। जॉर्ज के भाइयों ने उस पर से अपना हक वापस ले लिया और वह ज़मीन जॉर्ज को मिल गई। उस ज़मीन को बेचने से सोलह करोड़ रुपये मिले, जिसमें टैक्स काटने के बाद तेरह करोड़ उनके खाते में आ गए। अब जॉर्ज करोड़पति हो गए।

अचानक लैला कबीर(भाई अल्लमश कबीर सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हैं) लैला फर्नांडिस बनकर भारत आ गई और उन्हें एक बड़े झगड़े के बाद दिल्ली वापस लाकर अपने मकान में रखा है।

जबरदस्त समाजवादी, भारत में पहली बार तीन दिनों की मुकम्मल रेल हड़ताल के मुखिया, लोकसभा में धाकड़ स्पीकर, कोकाकोला को भारत से जाने पर विवश करने वाले जॉर्ज फर्नांडीस अब कहाँ और कैसे है किसी को पता नहीं।